

## सीएनएच इंडस्ट्रियल ने भारत में 77 स्कूलों में इंटरएक्टिव शिक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया

कंपनी और इसके न्यू हॉलैंड ब्रांड डीलर नेटवर्क की ओरसे शुरू की गई मल्टीमीडिया-समर्थित स्कूली शिक्षा परियोजना, "न्यू हॉलेंड डिजिटल क्लासरूम" की बदौलत 30,000 से भी अधिक बच्चे शिक्षण के नए इंटरएक्टिव तरीकों से लाभान्वित होंगे।

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2019

सीएनएच इंडिस्ट्रियल (एनवाईएसई: सीएनएच/एमआई: सीएनएचआई) और इसका न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ब्रांड 'न्यू हॉलैंड डिजिटल क्लासरूम'' के ज़िरए भारत भर की कक्षाओं में मल्टीमीडिया से पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करायगे। इस मल्टीमीडिया शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। यह सीएनएच इंडिस्ट्रियल भारत के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम का अंग है और इसके लिए कंपनी ने 2.5 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

न्यू हॉलैंड के राष्ट्रीय डीलर नेटवर्क की सहायता से चलाया जाने वाला यह कार्यक्रम गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु सहित 16 राज्यों के 77 स्कूलों में शुरू किया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे करीब 30.000 छात्र लाभान्वित होंगे।

ब्लैकबोर्ड पर लिखने और बोलने की पारंपरिक शिक्षण शैली से अलग हटकर, यह कार्यक्रम तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देता है ताकि विद्यार्थियों को एक इमर्सिव क्लासरूम अनुभव मिल सके। अभी, स्कूलों को इंटिग्रेटेड मल्टीमीडिया K-Yan नॉलेज डिवाइस प्रदान किए गए हैं, जिसमें एक इंटरएक्टिविटी, कंप्यूटर का प्रयोग, इंटरनेट एक्सेस, प्रोजेक्शन, और टेलिविज़न को एक ही सुविधाजनक शैक्षणिक सहायक में संयोजित किया गया है।

हर डिवाइस में पहले से निम्नलिखित कंटेंट लोड किया गया है:

- इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट और 2डी/3डी कंटेंट मॉड्यूल: अनेक विषयों के लिए विकसित विविध प्रकार के एनिमेटेड ऑडियो/वीडियो आधारित मॉड्यूल;
- वर्चुअल साइंस एक्सपेरिमेंट और 'एक्स्प्लोरिमेंट': ये सिमुलेशन-आधारित इंटरएक्टिव वर्चुअल एक्सपेरिमेंट हैं जो विज्ञान के कांसेप्ट की बेहतर समझ देते हैं। एक्स्प्लोरिमेंट नई चीज़ों की खोज करने और अभिरुचि जगाने का रोमांचक अनुभव देते हैं;
- विज्ञान वीडियो: आसानी से उपलब्ध वस्तुओं से तैयार शैक्षणिक वीडियो का यह व्यापक कलेक्शन विज्ञान के कांसेप्ट को बहुत सरलता और संदर्भ के साथ समझाता है।
- शिक्षकों की क्षमता का विकास।

इस वर्ष के दौरान, सीएनएच इंडस्ट्रियल का सीएसआर विभाग औरन्यू हॉलैंड समयसमयपर प्रभाव का आकलकरके यह पता लगाएंगे कि जिन स्कूलों में परियोजना लागू की जाएगी वहां शिक्षण पर इसके क्या परिणाम रहे।

विश्व तथा यूरोप में डॉउ जोन्स वहनीयता सूचकांक में आठ बार उद्योग में अग्रणी रहे सीएनएच इंडस्ट्रियल जिन क्षेत्रों में संचालन करती है वहां वहनीयता गतिविधियां चलाने के लिए वचनबद्ध है। यह शैक्षणिक पहल न्यू हॉलैंड के



डीलर नेटवर्क के संचालन वाले क्षेत्रों के समीप रहने वाले समुदायों के विकास को उत्प्रेरण देने और वहनीय बनाने का एक और साधन है।

एएमईए न्यूज़रूम में सीएनएच इंडस्ट्रियल और इसके ब्रांड के बारे में समाचारों की सूचनाएं पाने के लिए साइन अप करें:

media.cnhindustrial.com/AMEA-ENGLISH/Subscribe

सीएनएच इंडस्ट्रियल एन.वी. (एनवाईएसई: सीएनएच/ााः CNHI) स्थापित औद्योगिक अनुभव, उत्पादों की व्यापक श्रेणी और विश्वव्यापी उपस्थिति के साथ कैपिटल गुड्स सेक्टर में वैश्विक स्तर पर अग्रणी कंपनी है। कंपनी की हरेक अलग-अलग ब्रांड अपने विशिष्ट औद्योगिक सेक्टर में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हैसियत रखती है। ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी के लिए केस आईएच, न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर और स्टाइर (Steyr); अर्थ मूर्विंग उपकरणों के लिए केस एवं न्यू हॉलैंड कॉन्स्ट्रक्शन; व्यावसासिक वाहनों के लिए इवेको; बसों तथा कोच के लिए इवेको बस एवं ह्यूलिएज़ बस; क्वारी एवं कॉन्सट्रक्शन वाहनों के लिए इवेको एस्ट्रा; अग्निशमन वाहनों के लिए मैगीरस, रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के लिए इवेको डिफ़ेंस वेहिकल्स; और इंजनों तथा ट्रांसमिशन के लिए एफ़पीटी इंडस्ट्रियल। कॉरपोरेट वेबसाइट पर अधिक जानकारी देखी जा सकती है: www.cnhindustrial.com

## स्थानीय मीडिया संपर्क

राहुल शर्मा केचम संपर्क

टेलि: +91 850 600 6866

ईमेल: rahul.sharma@ketchumsampark.com